

न्याय साक्ष अधिकार से न्याय तक

आवश्यक स्चना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, बुधवार, 11 मई 2022

वर्ष-04, अंक- 222

महत्वपूर्ण एवं खास

अब सिर्फ 45 मिनट में आ जाएगी कोरोना रिपोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रमुख दवा कंपनी सिप्ला ने कोविड-19 आरटी पीसीआर परीक्षण किट पेश की है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि कोविड-19 आरटी पीसीआर परीक्षण किट की पेशकश के साथ वह अपने डायग्नोस्टिक उत्पादों का विस्तार कर रही है। सिप्ला भारत में आरटी पीसीआर परीक्षण किट का वितरण करेगी। दवा कंपनी ने कहा कि किट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा मान्यता प्राप्त है। कंपनी ने कहा कि इस किट की मदद से सिर्फ 45 मिनट में जांच का परिणाम पाया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकडों के अनसार, देश में मंगलवार को कोरोना वायरस के 2,288 नए केस सामने आए, जो सोमवार की तुलना में 28.6 फीसदी कम है। बता दें कि सोमवार को भारत में कोरोना वायरस के 3,207 नए केस आए थे। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव मामलों में भी कमी आई है और आंकड़ा 19,637 पहंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई. जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 524,103 पहंच गई है।

नेपाल में निकाय चुनाव, 13 मई तक अंतर्राष्ट्रीय बार्डर रहेगी सील

महराजगंज (आरएनएस)। नेपाल मे आगामी शुक्रवार को स्थानीय निकाय चुनाव होने है। जिसमे सात प्रदेश के 77 जिलों में मतदान होगा। ऐसे में सीमावर्ती इलाकों में जांच पड़ताल व प्रत्येक गतिविधियों पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। चुनाव को शांतिपुर्ण तरीके से सम्पन्न कराने व सुरक्षा के दृष्टिगत 11 से 13 मई तक अंतरराष्ट्रीय नेपाल बार्डर सील रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार भारत के मित्र व पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में 2015 में नया संविधान लाग् होने के बाद आगामी शुक्रवार को नगर पालिका व गांव पालिका का दसरी बार चुनाव होने जा रहा है। इसमें मेयर, उप मेयर, वार्ड अध्यक्ष व सदस्य के चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे। जिसे लेकर सीमावर्ती इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां द्वारा जांच पड़ताल व प्रत्येक गतिविधियों पर निगरानी भी कड़ी कर दी गई है। नेपाल के अधिकारियो ने निर्णय लिया है चुनाव को शांतिपुर्ण माहौल में सम्पन्न कराने व सुरक्षा के मद्देनजर 13 मई तक नेपाल सीमा को सील कर सामान्य आवागमन पर रोक लगी रहेगी। मतदान समाप्ति होने बाद ही बार्डर पर आवागमन बहाल होगा।

ट्रैक्टर ट्रॉली के ट्रेलर की चपेट में आने से चार बारातियों की मौत, 13 घायल

बारां (आरएनएस)। राजस्थान के बारां शहर के सदर थाना क्षेत्र में आज सुबह ट्रेलर के ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार देने से दो महिला सहित चार बारातियों की मौत हो गई जबकि तेरह घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक मीणा ने बताया कि क्षेत्र में बटावदा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सताईस पर ट्रैक्टरों से भरे ट्रेलर ने ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में चार लोगों की मृत्यु हो गई जबकि तेरह लोग घायल हो गये। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें कोटा एमबीएस अस्पताल भेजा गया है। मृतकों की पहचान भूलीबाई, तुलसी बाई एवं कमललाल मीना और रामकरण सेन के रुप में की गई है। ये सभी बराती बटावदा से शादी समारोह के बाद वापस अंता के हनुवतखेड़ा लौट रहे थे। खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और चिकित्सकों को घायलों के समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए।

तजिंदर बग्गा को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 5 जुलाई तक बढ़ाई गिरफ्तारी पर रोक

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को आज बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 जुलाई तक सिंह की गिरफ्तारी पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है। इस दौरान पंजाब सरकार भी भाजपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। खास बात है कि इससे पहले भी उच्च न्यायालय ने मध्य रात्रि में हुई सुनवाई के दौरान बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी थी। इस महीने पंजाब पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ भड़काऊ बयान देने, धार्मिक नफरत फैलाने और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कथित धमकी देने के मामले में बग्गा को गिरफ्तार किए जाने का भाजपा ने जमकर विरोध किया था।

मोहाली ग्रेनेड अटैक: पंजाब पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया

मोहाली में पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा पर ग्रेनेड हमले के सिलसिले में पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस अभी तक हमलावरों का पता नहीं लगा पाई है, हालांकि सीसीटीवी फटेज की जांच चल रही है। एक अधिकारी ने कहा कि ग्रेनेड लगभग 100 मीटर के दायरे से फेंका गया था। एनआईए, आईबी और अन्य सरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने अनौपचारिक रूप से मौके का दौरा किया

आतंकवाद रोधी विशेषज्ञ अधिकारियों ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी राज्य पलिस कार्यालय पर हमले के लिए आरपीजी का इस्तेमाल किया गया है। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल हथियार को कहते हैं। वैसे को इसका इस्तेमाल अक्सर टैंक विरोधी हथियारों के रूप में किया जाता है लेकिन की भूमिका की जांच कर रही है। बताया



पंजाब में इस तरह के हथियार का पहुंचना काफी चौंकाने वाला है।

आतंकवादी बने हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा की भूमिका की जांच कर रही पुलिस पंजाब पुलिस का खुफिया दफ्तर ओपन है लेकिन कर्मचारियों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने कहा, ऐसा लगता है कि आरोपियों को विदेश से काम करने वाले लोगों ने काम पर रखा था। पुलिस विस्फोट में गैंगस्टर से आतंकवादी बने हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा

रहता है। वह फिरोजपुर-टू-तेलंगाना हथियार तस्करी मामले के अलावा नवांशहर पुलिस सीआईए कार्यालय विस्फोट मॉमले में वांछित है।

की बात यह है कि हमलावरों ने इस बार खुफिया मुख्यालय पर हमला करने की हिम्मत की है। यह परेशान

करने वाला है कि आतंकी समह इस तरह के काम को करने के लिए पैसे की पेशकश करके आसानी से यवाओं की भर्ती कर रहे हैं। पहले की एक रिपोर्ट के अनुसार, जांच एजेंसियों को संदेह था कि हमलें में दो लोग

पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं कायर लोग: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मोहाली में हए विस्फोट को राज्य की शांति भंग करने वाले लोगों की कायराना हरकत बताया

जाता है कि रिंडा पाकिस्तान में है। केजरीवाल ने ट्वीट कर आज कहा. मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार उन लोगों के मंस्बे पूरे नहीं होने एक अधिकारी ने कहा, चिंता देगी। पंजाब के सब लोगों के साथ मिलके हर हालत में शांति क़ायम रखी जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी।'

> वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, मोहाली में हुए ब्लास्ट की जांच पुलिस कर रही है। जिसने भी हमारे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की उसे बख़्शा नहीं जाएगा।'

उल्लेखनीय है कि पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित खिफया विभाग के मुख्यालय पर बीती रात को विस्फोट किया गया। इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हआ है। इस घटना के बाद पंजाब पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर

श्रीलंका में बिगडे हालात, हिंसा में 5 लोगों की मौत, भीड़ ने पीएम का घर फूंका

समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई झड़प में राजपक्षे बंधओं की सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पोलोन्नारुआ जिले से श्रीलंका पोद्जना पेरामुना (एसएलपीपी) के सांसद अमरकीर्ति अतुकोराला (57) को सरकार विरोधी समृह ने पश्चिमी शहर नित्तम्बुआ में घेर लिया था। वहीं लोगों का दावा है कि सांसद की कार से गोली चली थी और जब आक्रोशित भीड़ ने उन्हें कार से उतारा तो उन्होंने भागकर एक इमारत में शरण ली। लोगों का कहना है कि सांसद ने स्वयं अपनी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस ने बताया कि इमारत को हजारों लोगों ने घेर रखा था और बाद में सांसद और उनका निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) मृत मिला। गोलीबारी में 27 वर्षीय एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हुई है। इस गई।

अप्रैल, 2022 के दौरान कोयला उत्पादन 29

कोलंबो । श्रीलंका में सरकार बीच कोलंबो में गोटागोगामा और मैनागोगामा प्रदर्शन स्थल पर हए हिंसक हमले के बाद श्रीलंका में कानन व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई है। एसएलपीपी पार्टी के नेताओं के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर हमले हो रहे हैं। आक्रोशित भीड़ ने पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो के करुनेगाला और कोलंबों स्थित कार्यालयों पर हमला किया है। उनके बार में भी आग लगाए जाने की खबर है। पूर्व मंत्री नीमल लांजा के आवास पर भी हमला किया गया है जबिक महापौर समन लाल फर्नांडो के आवास में आग लगा दी गई। सत्तारूढ़ पार्टी के मजदुर नेता महिंदा कहानदागमागे के कोलंबो स्थित आवास पर भी हमला हुआ है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के समर्थकों द्वारा शांतिपर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला किए जाने के बाद पुरे देश में हिंसा भड़क़

जैविक नमूनों के इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी पर आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला

नई दिल्ली (आरएनएस)। अखिल भारतीय प्रैक्टिकल सत्रों के साथ संचालित किया जायेगा। आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली नौ मई से 13 मई, 2022 तक पंचिदवसीय कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑफलाइन) का आयोजन कर रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन डीएसटी, एसटीयूटीआई, डीएसटी एसएफआई और डीबीड एसएएचएजे कार्यक्रमों के तहत क्षमता-निर्माण के लिये हो रहा है।

कार्यशाला में इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी (आरटी-एंड-क्रायो) का परिचयात्मक ज्ञान प्रदान करने पर ध्यान दिया जायेगा। इसमें प्लंज फ्रीज़िंग, क्रायो-अल्ट्रामाइक्रोटॉमी या क्रायो फोक्स्ड-आयन बीम, ग्लो डिसचार्ज, ग्रोइंग सेल्स ऑन ग्रिड्स, ट्रांसफर ऑफ ग्रिड टू दी ईएम, हैंडलिंग, टिल्ट सीरीज डाटा संकलन, आईएमओडी के साथ उनका प्रसंस्करण तथा ई-टोमो सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से नमनों की तैयारी शामिल है। कार्यशाला को सैद्धांतिक/प्रणाली आधारित व्याख्यानों तथा प्रत्यक्ष

कार्यशाला का उद्घाटन कल एम्स, नई दिल्ली के निदेशक प्रो. रनदीप गुलेरिया ने किया था। उद्घाटन के समय एम्स, नई दिल्ली के डीन अनुसंधान प्रो. सुब्रत सिन्हा, भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग की डॉ. गरिमा गुप्ता और एम्स के एनाटॉमी विभाग के प्रमुख प्रो. ए. शरीफ उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में प्रो. मनदीपा बनर्जी, आईआईटी दिल्ली; प्रो. सनील कटेरिया, जेएनयु; डॉ. गोपाल झा, एनआईपीजीआर, नई दिल्ली: डॉ. एनके प्रसन्ना, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीएसआईआर-एनआएससीपीआर, नई दिल्ली; डॉ. प्रणय तंवर, बीआरए आईआरसीएस, एनआईएमएस, नई दिल्ली; प्रो. टीसी नाग, प्रभारी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फैसेलिटी, एम्स, नई दिल्ली; डॉ. सुभाष चंद्र यादव, अतिरिक्त प्रोफेसर, एनाटॉमी विभाग, एम्स, नई दिल्ली तथा डॉ. रवि प्रकाश, वैज्ञानिक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फैसेलिटी, एम्स, नई दिल्ली भी उपस्थित थे।

फीसदी बढक़र 66.58 मिलियन टन हो गया (आरएनएस)।

नर्ड दिल्ली कोयला मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 2022 में कुल कोयला उत्पादन 29 फीसदी बढक़र 66.58 मिलियन टन (एमटी) हो गया। इससे पहले अप्रैल, 2021 में यह आंकड़ा 51.62 मिलियन टन था। अप्रैल, 2022 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) और कैप्टिव खानों/अन्य ने क्रमश: 53.47 मिलियन टन, 5.32 मिलियन टन और 7.79 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। इस दौरान इनके उत्पादन में क्रमश: 27.64 फीसदी, 9.59 फीसदी और 59.98 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज



की गई।

वहीं, कोयला प्रेषण (डिस्पैच) में भी 8.66 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई और अप्रैल, 2020 के 65.62 मिलियन टन के मुकाबले अप्रैल, 2022 में 71.30 मिलियन टन कोयला भेजा गया। अप्रैल, 2022 के दौरान सीआईएल, एससीसीएल और कैप्टिव/अन्य ने क्रमश: 57.50 मिलियन टन, 5.74 मिलियन टन और 8.06 मिलियन टन प्रेषण करके 6.01 फीसदी, 5.53 फीसदी और 35.69 फीसदी की बढोतरी दर्ज की। शीर्ष 37 कोयला उत्पादक खानों में

से 22 ने 100 फीसदी से अधिक और अन्य 10 खानों का उत्पादन 80 से 100 फीसदी के बीच रहा है। अप्रैल, 2022 के दौरान विद्यत कंपनियों के लिए कोल प्रेषण 18.15 फीसदी बढकर 61.81 मिलियन टन हो गया है. इससे पहले अप्रैल, 2020 में यह 52.32 मिलियन टन था। अक्टूबर, 2021 के बाद से कोयले की आयात कीमतों में गिरावट देखी गई है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कीमतें अभी भी उच्च स्तर पर हैं।

पिछले महीने कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में अप्रैल, 2021 के हो गया है।

मुकाबले 9.26 फीसदी और मार्च 2022 की तुलना में 2.25 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल, 2022 में समग्र विद्युत उत्पादन अप्रैल, 2021 के मुकाबले 11.75 फीसदी और मार्च, 2022 की तुलना में 2.23 फीसदी अधिक रहा है। कोयला आधारित विद्यत उत्पादन मार्च, 2022 के 100276 मिलियन युनिट की तुलना में अप्रैल, 2022 में 102529 मिलियन युनिट रहा है और इसमें 2.25 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, अप्रैल, 2022 में कुल विद्युत उत्पादन भी मार्च, 2022 के 1,33,584 मिलियन यूनिट से बढक़र 1,36,565 मिलियन यूनिट

कश्मीर के आठवीं शताब्दी के मंदिर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की पूजा, एएसआई ने जताया ऐतराज

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा अनंतनाग के मझ्न में आठवीं शताब्दी के मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडहरों में प्रार्थना में भाग लेने के एक दिन बाद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने जिला प्रशासन के प्रति चिंता व्यक्त की। यह स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित है। हालांकि जम्म-कश्मीर

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले स्थित मार्तंड सर्य मंदिर में पजा अर्चना करने के लिए उप राज्यपाल को किसी अनुमति की जरूरत नहीं है।

सिंघला ने कहा कि कार्यक्रम को प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल व अवशेष स्मारक को संरक्षण करने वाले संगठन से



अधिनियम-1959 के नियम 7(2) के तहत इजाजत थी। उल्लेखनीय है कि सिन्हा ने प्राचीन मंदिर परिसर में 'नवग्रह अष्टमंगलम पूजा' में हिस्सा लिया था जिसके लिए केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से पुजारियों अनंतनाग जिले के उपायक्त डॉ. पीयष को बलाया गया था। इसके एक दिन बाद

एएसआई अधिकारियों ने पहचान गप्त रखने की शर्त पर बताया कि उन्होंने अपनी नाराजगी दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले के प्रशासन के समक्ष व्यक्त की है और मुद्दे पर चिंता जताई है जिनमें नियम 7(1) का उल्लंघन शामिल

है। इसके तहत कोई भी बैठक, रिसेप्शन, पार्टी या सम्मेलन संरक्षित स्मारक में बिना केंद्र सरकार की लिखित अनुमति के नहीं

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1959 एएसआई के अधिकारियों ने कहा कि इस के नियम 7 (1) में कहा गया है कि केंद्र सरकार की लिखित अनुमति के बिना किसी

इस पूजा की अनुमति नहीं ली गई संरक्षित स्मारक में बैठकें, स्वागत, दावत, मनोरंजन या सम्मेलन आयोजित नहीं किए जा सकते। नियम 7 (2) कहता है कि यह किसी मान्यता प्राप्त धार्मिक प्रथा या प्रथा के अनुसरण में आयोजित होने वाले किसी भी कार्यक्रम पर लागू नहीं होना चाहिए।

अधिकारियों ने कहा कि नियमों के अनुसार, यदि कोई स्थल संरक्षण निकाय के अधिकार क्षेत्र में आने के समय पूजा-अर्चना का एक कार्यात्मक स्थान था, तो वह पूजा स्थल बना रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि हालांकि, मार्तंड सूर्य मंदिर ऐसा स्थल नहीं है, इसलिए अनुमति की जरूरत थी।

ऐसे संरक्षित स्थल जो एएसआई के कार्यभार संभालने के समय पूजा स्थल थे, उनमें जामिया मस्जिद, श्रीनगर और फतेहपुर सीकरी मस्जिद शामिल हैं।

पानी में डूबने से चार बच्चों की हुई मौत

जोधपुर (आरएनएस)। राजस्थान के जोधपुर शहर के सूरसागर क्षेत्र में खान में भरे पानी में नहाते समय चार बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार क्षेत्र के कालीबेरी में आज सुबह

इन बच्चों के शव खान में भरे पानी पर पुलिस को सूचना दी गई और से बाहर निकाले गये। मृतक बच्चों की पहचान पाकिस्तान विस्थापित बस्ती के टीकम उसका भाई गोपाल एवं युवराज एवं उसका भाई पुनमचंद के रुप में की गई हैं। ये बच्चे पांच से बारह साल के बीच की उम्र के बताये जा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि इनके परिजन शादी समारोह में शरीक होने के लिए जोधपुर से बाहर गये थे और सुबह लौटने पर उन्हें बच्चे नजर नहीं आने पर आस पास उन्हें तलाशने पर उनके कपड़े एक खान के पास दिखने



उनके डूबने का पता चला। बाद में पुलिस ने गोताखोर की मदद से चारों बच्चों के शव बाहर निकाले।

हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया और कहा कि जोधपुर में सूरसागर के कालीबेरी क्षेत्र में खान में भरे पानी में नहाते समय डूबने से चार बालकों की मृत्यु बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। गहलोत ने कहा मेरी गहरी संवेदनाएं बच्चों के माता-पिता एवं परिजनों के साथ हैं, ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में सम्बल प्रदान करें।

चक्रवात असानी का असर, खाली कराए जा रहे तटीय इलाके

की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तुफान पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने असानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात असानी के असर से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से तूफान की चेतावानी को देखते हुए ओडिशा सरकार अलर्ट पर है। प्रशासनस की तरफ से तटीय इलाके खाली करवाए जा रहे हैं।

मौसम विभाग के अनुमान के

नई दिल्ली (आरएनएस)। बंगाल से पश्चिम मध्य और इससे सटे उत्तर-की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई बुलेटिन में बताया गया है कि चक्रवात उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ सकता है और ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। वहीं, अगले 24 घंटों के दौरान इसके धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है।

चक्रवात का असर ओडिशा के तटीय इलाकों में दिखेगा। दोनों ही राज्यों मुताबिक चक्रवात असानी के 10 मई की में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम रात तक उत्तर पश्चिम की ओर बढऩे और बारिश होने की संभावना है। आईएमडी

तटीय इलाके और उत्तरी आंध्र प्रदेश के हिस्सों में सात से 11 सेंटीमीटर बारिश का अनमान लगाया है।

ओंडिशा के सभी बंदरगाहों पर दुरस्थ चेतावनी संकेत-2 जारी कर दिया गया उत्तरी आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के तटों ने ओडिशा के तटीय इलाकों के कुछ है। इसके तहत जहाजों को तट के पास

नहीं आने के लिए आगाह किया गया है। वहीं, मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक पश्चिम-मध्य और उससे सटे दक्षिण बंगाल की खाड़ी में समुद्र में नहीं जाने की सलाह

असानी चक्रवाती तूफान ने बदल दिया रास्ता, आंध्र प्रदेश में जारी किया गया अलर्ट

बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की वजह से बना चक्रवाती त्फान असानी मंगलवार को आंध्र और ओडिशा के तटों के समानांतर आने वाला था लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि तूफान ने अपना रास्ता बदल दिया है। अब मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि काकीनाड़ा और विशाखापट्टनम के बीच में यह तूफान ज्यादा तबाही मचा सकता है। सिंहला में असानी का मतलब गुस्सा होता है। यह तूफान अब उत्तरपश्चिम की तरफ आगे बढ़ रहा है। बीते एक दिन से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज हवा और बारिश देखी जा रही है। आंध्र में कई जगहों पर पेड़ जड़ से उखड़ गए। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात धीरे-धीरे उत्तर-उत्तरपश्चिम की ओर मुड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 36 घंटे में यह चक्रवाती तूफान कमजोर पड़ेगा। 12 मई की सुबह तक इसका प्रभाव बहुत कम रह जाएगा लेकिन इससे पहले तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं।